

# आग से घर की सुरक्षा की जाँच-तालिका

Fact Sheet 10 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004 - Hindi

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

## यथार्थ

पिछले साल, फॉयर प्लेस, हीटर तथा गर्म पानी के हीटर के कारण आरम्भ हुई आग से 189 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये थे। 974 घरों में आग स्टोव, ऑवन, तलने व खाना बनाने वाले उपकरणों के कारण आरम्भ हुई तथा 592 आग मशीनी गड़बड़ी जैसे कि खराब प्लग तथा शॉर्ट सर्किट के कारण आरम्भ हुई।

(17/04/03 के प्राप्त आंकड़े के अनुसार)

## क्या आप अपने घर में आग से सुरक्षित हैं?

एन. एस. डबल्यू. अग्नि शामक दल ने आपके घरों को आग से सुरक्षित रखने में सहायता करने के लिए यह सुरक्षा जाँच तालिका प्रस्तुत की है।

- सर्वप्रथम आग से सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अपने घर में उचित संख्या में आग के खतरे की घण्टी ( **smoke alarm**) लगायें तथा समय-समय पर उनकी जाँच करें।
- दुसरा कदम है - अगर आग लग जायें तो उससे बचने के लिए 'लिखित बचाव योजना' बनायें तथा उसका नियमित अभ्यास करें।
- ध्यान रखें कि बचाव की स्थिति में बाहर निकलने के लिए, सभी ताला बन्द दरवाजों की चाबियाँ आपको असानी से मिल जायें।
- कभी भी खाना बनाने वाली आग अथवा मोमबत्ती या लालटेन की जलती हुई खुली आग को जलता हुआ छोड़कर न जायें।
- हर बार कपड़े सुखाने वाले ड्रायर के प्रयोग के बाद उसमें लगे रोंयों को साफ कर दीजियें।
- बिस्तर में धुप्रपान कभी न करें तथा अगर धुप्रपान के साथ शराब का सेवन कर रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- सर्दियों में बिजली के हीटर, कम्बल तथा खुली आग के प्रयोग के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- बिजली की जो उपकरण प्रयोग में न आ रहे हो, उनके खटके बन्द कर दें तथा विद्युत केन्द्र ( **power point**) पर आवश्यकता से अधिक चीजे न लगायें।
- माचिस तथा लाईटर को बच्चों से हमेशा दूर रखिये तथा उन्हें शिक्षित करें कि ये चीजे "औजार है खिलौने नहीं" जिनका प्रयोग केवल बड़े लोग ही कर सकते हैं।
- अगर आपने गैराज़ या शेड में रासायनिक पदार्थ या ईंधन रखा हुआ है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। मोवर तथा ऍंजर आदि जब ठण्डे हो तब खुले स्थान में ही उनमें ईंधन भरिये।
- अगर आपके पास बिजली, गैस अथवा लकड़ी का बॉरबीक्यू ( **BBQ**) है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले जाँच लीजिए कि वह प्रयोग करने लायक है कि नहीं तथा उसका प्रयोग हमेशा जिम्मेवार व्यस्क व्यक्ति की देखरेख में किया जाना चाहिए। बॉरबीक्यू ( **BBQ**) से सामान्य सुरक्षा के लिए सूचना-पत्र 16 देखिए।
- अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ दावानल ( **bushfire**) का खतरा अधिक होता है तो अपने घर के आसपास के स्थान को पत्तों तथा अन्य कूड़े करकट से रहित रखें तथा अपने परनालो ( **gutters**) को नियमित रूप से साफ रखें।

अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय अग्नि शामक केन्द्र या अग्नि नियंत्रण केन्द्र से सम्पर्क करें

अथवा देखें: [www.fire.nsw.gov.au](http://www.fire.nsw.gov.au) [www.rfs.nsw.gov.au](http://www.rfs.nsw.gov.au) or [www.esa.act.gov.au](http://www.esa.act.gov.au)

## अग्नि से बचाव के सुझाव

- याद रखें कि आग के धुएँ से आप भ्रमित हो जायेंगे तथा आप धुँएँ में देख नहीं सकेंगे।
- अगर आप सोये हुए है तो आपको धुँएँ की गन्ध नहीं आयेगी तथा वास्तविकता में इसके प्रभाव से आप गहरी नींद में चले जायेंगे।
- अगर आप घर की आग से बच निकले है तो याद रखें कि बाहर आने के बाद आप बाहर ही रहें तथा 000 नम्बर पर फोन करें।
- बिजली, गैस अथवा लकड़ी के हीटर को वार्षिक जाँच की आवश्यकता हो सकती है।
- बिजली के सुरक्षा खटके ( **electrical safety switch**) लगायें तथा बताई गई स्तर के फ्यूज़ का ही केवल प्रयोग करें।
- घर से आग की सुरक्षा पूरे परिवार के लिए आवश्यक है तथा तैयारी द्वारा दुर्घटना होने से बचा जा सकता है।

आपातकाल में 000 नम्बर पर फोन कीजिए